

Purpose of this form

इस फॉर्म का प्रयोजन

This form is part of your claim for an Australian Age Pension.

The information in this form is used to calculate your rate of payment of Australian Pension or review your entitlement under Australian social security law.

यह फॉर्म ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन के लिए आपके क्लेम का भाग है।

इस फॉर्म में शामिल जानकारी का प्रयोग ऑस्ट्रेलियाई पेंशन की आपकी भुगतान दर का हिसाब लगाने के लिए अथवा ऑस्ट्रेलियाई सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) कानून के अधीन आपकी पात्रता की समीक्षा करने के लिए किया जाता है।

Filling in this form

इस फॉर्म को भरना

- Please use black or blue pen.
- Print in BLOCK LETTERS.
- Mark boxes like this with a tick ✓ or X.
- When you see a box like this Go to 5 skip to the question number shown. You do not need to answer the questions in between.
- कृपया काली या नीली कलम का प्रयोग करें।
- बड़े अक्षरों में प्रिंट करें।
- तरह के बॉक्स पर एक ✓ सही का निशान लगायें या X का निशान लगायें।
- जब आप ऐसा बॉक्स देखें 5 पर जाएँ, तो सीधे दिखाई गई प्रश्न संख्या पर जाएँ। आपके लिए इनके बीच के प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी नहीं है।

Important Note: You must return this form with your claim form and **all** other supporting documents and lodge them at the same time. If you do not return all documents, your claim may not be accepted. The only exceptions will be if you are waiting for medical evidence or statements and other forms from a third party.

महत्वपूर्ण टिप्पणी: आपको अपने क्लेम फॉर्म के साथ यह फॉर्म और **सभी** सहायक दस्तावेज़ वापिस भेजने चाहिए और इन्हें एक साथ जमा कराना चाहिए। यदि आप सभी दस्तावेज़ वापिस नहीं करते/करती हैं तो हो सकता है कि आपका क्लेम स्वीकार न किया जाए। ऐसी स्थिति में छूट केवल तभी मिलेगी यदि आप किसी तृतीय पक्ष से चिकित्सीय प्रमाण या वक्तव्यों तथा अन्य फॉर्मों की प्रतीक्षा कर रहे हों।

Returning your form(s)

अपने फॉर्म(मों) को वापस भेजना

Check that all required questions are answered and that **all** forms are signed and dated.

You can return forms and any supporting documents:

In person/by post – to the Indian Employees' Provident Fund Organisation.

The Indian Employees' Provident Fund Organisation will copy original documents for you and return them to you. The claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim forms, please ensure you keep a copy, not the original. The Indian Employees' Provident Fund Organisation will forward all forms and supporting documentation to Services Australia.

Online – submit your documents online (excluding identity documents). For more information about how to access an Online Account or how to lodge documents online, go to servicessaustralia.gov.au/centrelinkuploaddocs

By post – return your documents by sending them to:

**Services Australia
International Services
PO Box 7809
Canberra BC ACT 2610
AUSTRALIA**

If you send original documents to us, we will make copies and return the original documents to you.

While you can lodge your form direct with us, lodging with the local Indian Employees' Provident Fund Organisation office will normally make it easier and faster for you to receive a decision on your claim.

अपने फॉर्म(मों) को वापस भेजना

जांच करें कि सभी ज़रूरी सवालोंने के जवाब दिए गए हैं और सभी फॉर्मों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और दिनांक डाली गई है।

आप फॉर्म और कोई सहायक दस्तावेज़ वापिस भेज सकते हैं।

खुद आकर/डाक से – भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) को।

भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) संस्था आपके लिए मूल दस्तावेज़ों की प्रति बनाएगी और इन्हें आपको वापस भेजेगी। क्लेम फॉर्म की प्रति बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप क्लेम फॉर्म की प्रति बनाते/बनाती हैं, तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप इसकी एक प्रति अपने पास रखते/रखती हैं, न कि मूल दस्तावेज़। भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) संस्था सभी फॉर्मों और समर्थन हेतु दस्तावेज़ों को Services Australia के पास अग्रेषित करेगी।

ऑनलाइन – अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा कराएँ (पहचान संबंधी दस्तावेज़ों को छोड़कर)। ऑनलाइन एकाउंट कैसे ऐक्सेस करें या दस्तावेज़ ऑनलाइन कैसे जमा कराएँ, इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए

servicesaustralia.gov.au/centrelinkuploaddocs देखें।

डाक द्वारा – अपने दस्तावेज़ निम्नलिखित पते पर डाक से भेजें:

**Services Australia
International Services
PO Box 7809
Canberra BC ACT 2610
AUSTRALIA**

यदि आप हमें मूल दस्तावेज़ भेजते हैं, तो हम इनकी प्रतियाँ तैयार करके मूल दस्तावेज़ आपको वापिस भेज देंगे।

हालाँकि आप अपना फॉर्म सीधे हमें जमा करा सकते/सकती हैं, पर इसे भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) के साथ जमा कराने से सामान्यतः आपके लिए अपने क्लेम पर निर्णय प्राप्त करना अधिक आसान और शीघ्र बन जाएगा।

For more information और अधिक जानकारी के लिए

Call us direct (free of charge) on **000 800 61 01098**, Monday to Friday between 8.00 am and 5.00 pm (Hobart Time). This service may not be available from all locations in India. If this service is not available call us on **+61 3 6222 3455**.

Information online – If you would like further information on Centrelink services and payments, you can go to our website **servicesaustralia.gov.au**

हमें (निःशुल्क) सोमवार से शुक्रवार सुबह 8.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे (होबार्ट का समय) के बीच सीधे **000 800 61 01098** पर फोन करें। हो सकता है कि यह सेवा भारत में सभी स्थानों पर उपलब्ध न हो। यदि यह सेवा उपलब्ध नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में हमें **+61 3 6222 3455** पर फोन करें।

सूचना ऑनलाइन – यदि आपको Centrelink की सेवाओं व भुगतानों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट **servicesaustralia.gov.au** देख सकते/सकती हैं।

Personal details
व्यक्तिगत विवरण

1 Your name
आपका नाम

Mr Mrs Miss Ms Other
श्रीमान श्रीमती कुमारी सुश्री अन्य

Family name
पारिवारिक नाम

First given name
प्रथम नाम

Second given name
द्वितीय नाम

2 Your date of birth
आपकी जन्म-तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	

3 Your Centrelink Reference Number (if known)
आपका Centrelink रेफरेंस नम्बर (यदि ज्ञात हो)

	-		-		-	
--	---	--	---	--	---	--

4 Your contact details
आपके संपर्क विवरण

It is important that you include the complete number (including country and area codes) as we may need to contact you on these numbers.

यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरा नम्बर (कंट्री एवं एरिया कोड सहित) देते/देती हैं क्योंकि हमें आपके इन नम्बरों पर संपर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है।

Country () Area code () कंट्री एरिया कोड

5 Do you have a partner (married, registered or de facto of the opposite-sex or same-sex)?

क्या आपका कोई पार्टनर है (विवाहित, पंजीकृत या विपरीत-लिंगी अथवा समान-लिंगी डिफैक्टो)?

No **Go to 12**
नहीं **12 पर जाएँ**

Yes **Go to next question**
हाँ **अगले प्रश्न पर जाएँ**

6 Please read this before answering the following questions.

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इसे पढ़ें।

If you are CURRENTLY in a relationship, we require your partner's details to assess your entitlement.
यदि आप वर्तमान में किसी सम्बन्ध (रिलेशनशिप) में हैं, तो आपकी पात्रता का आकलन करने के लिए हमें आपके पार्टनर (सहजीवी) के विवरणों की भी ज़रूरत होगी।

7 Is your partner also claiming an Australian Age Pension?
क्या आपका पार्टनर भी ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन के लिए क्लेम कर रहा है?

No **Go to 9**
नहीं **9 पर जाएँ**

Yes **Go to next question**
हाँ **अगले प्रश्न पर जाएँ**

8 Is your partner using this form or a separate form for a claim or to provide their details?

क्या आपका पार्टनर क्लेम के लिए या अपने विवरण प्रदान करने के लिए इस फॉर्म या किसी अलग फॉर्म का प्रयोग कर रहा है?

This form
इस फॉर्म का प्रयोग

Separate form
अलग फॉर्म का प्रयोग

9 Your partner's name

आपके पार्टनर (सहजीवी) का नाम

Mr Mrs Miss Ms Other
श्रीमान श्रीमती कुमारी सुश्री अन्य

Family name
पारिवारिक नाम

First given name
प्रथम नाम

Second given name
द्वितीय नाम

10 Your partner's date of birth

आपके पार्टनर की जन्म-तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	



CLK0Mod(iA)IN 2012

11 Do you give your partner permission to make enquiries on your behalf with Services Australia?

क्या आप अपने पार्टनर (सहजीवी) को आपकी ओर से Services Australia से पूछताछ करने की अनुमति देते/देती हैं?

You can change this authority at any time.

आप किसी भी समय अपने अधिकार को बदल सकते/सकती हैं।

No

नहीं

Yes

हाँ

Employment income

रोजगार से आय

12 Are you (and/or your partner) currently paid or expecting to be paid any income from work other than self-employment?

क्या आप (और/या आपका जीवनसाथी) वर्तमान में भुगतान प्राप्त कर रहे/रही हैं या स्वरोजगार के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य से आय का भुगतान प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे/रही हैं?

Include all income before tax and other deductions from:

- wages
- salaries
- bonuses
- additional payments.

Do not include self-employment or business income. This will be asked later in the form.

निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त सभी करपूर्व आय और अन्य कटौतियाँ शामिल करें:

- पारिश्रमिक
- वेतन
- बोनस
- अतिरिक्त भुगतान

स्व-रोजगार या व्यवसाय से प्राप्त आय शामिल न करें। फॉर्म में इसके बारे में आगे पूछा जाएगा।

No **Go to 14**

नहीं **14 पर जाएँ**

Yes Give details on the next column

हाँ अगले कॉलम पर विवरण दें

AND

और



Please attach a copy of your most recent payslip(s).

कृपया अपनी सबसे हाल की पेस्लिप (वेतन पर्ची/पर्चियों) की प्रति संलग्न करें

12 Continued

जारी है

1 Person working for this employer

इस कार्य-नियोक्ता के लिए काम करने वाला व्यक्ति

You

आप

Your partner

आपका पार्टनर (सहजीवी)

Name of employer

कार्य-नियोक्ता का नाम

Address

पता

Country
कटौती

Job description

नौकरी का विवरण

Workplace (if different from your employer's address)

कार्यक्षेत्र (यदि आपके कार्य-नियोक्ता के पते से भिन्न हो)

Is this work:

क्या यह कार्य:

Full time

फुल टाइम (पूर्णकालिक)

Part time

पार्ट टाइम (अंशकालिक)

Seasonal

मौसमी है

Casual

आकस्मिक है

Hours worked per fortnight

प्रत्येक पखवाड़े काम करने के घंटे

 per fortnight
प्रत्येक पखवाड़े

Gross amount paid per fortnight (before tax and other deductions)

प्रति पखवाड़े भुगतान की गई कुल राशि (कर और अन्य कटौतियों से पहले)

 per fortnight
प्रत्येक पखवाड़े

Currency

मुद्रा

Do you plan to stop working soon?

क्या आपकी जल्दी ही काम करना बंद करने की योजना है?

No

नहीं

Yes **Date you plan to stop working**

हाँ वह तिथि जब से आपकी काम करना बंद करने की योजना है

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

12 Continued

जारी है

1 Person working for this employer

इस कार्य-नियोक्ता के लिए काम करने वाला व्यक्ति

You

Your partner

आप

आपका पार्टनर (सहजीवी)

Name of employer

कार्य-नियोक्ता का नाम

Address

पता

Country
क़्द्री

Job description

नौकरी का विवरण

Workplace (if different from your employer's address)

कार्यक्षेत्र (यदि आपके कार्य-नियोक्ता के पते से भिन्न हो)

Is this work:

क्या यह कार्य:

Full time

Part time

फुल टाइम (पूर्णकालिक)

पार्ट टाइम (अंशकालिक)

Seasonal

Casual

मौसमी है

आकस्मिक है

Hours worked per fortnight

प्रत्येक पखवाड़े काम करने के घंटे

 per fortnight
प्रत्येक पखवाड़े

Gross amount paid
per fortnight (before tax
and other deductions)

प्रति पखवाड़े भुगतान की गई कुल राशि
(कर और अन्य कटौतियों से पहले)

 per fortnight
प्रत्येक पखवाड़े

Currency

मुद्रा

Do you plan to stop working soon?

क्या आपकी जल्दी ही काम करना बंद करने की योजना है?

No

नहीं

Yes

Date you plan to stop working

हॉ वह तिथि जब से आपकी काम करना बंद करने की योजना है

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

If you (and your partner) work for more than 2 employers,
attach a separate sheet with details.

यदि आप (और/या आपका पार्टनर) 2 से अधिक कार्य-नियोक्ताओं के लिए
काम करते/करती हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

13 Do you (and/or your partner) receive a fringe benefit provided by this employer?

क्या आपको (और/या आपके पार्टनर) को इस नियोक्ता से फ्रिज बेनिफिट
(अनुषंगी हितलाभ) मिलता है?

Fringe benefit means a benefit you receive as part of
your employment income but not as a wage or salary
(e.g. use of a car as part of a salary package).

फ्रिज बेनेफिट्स से तात्पर्य ऐसे बेनेफिट्स (लाभ) से है, जिन्हें आप वेतन
या तनख्वाह के तौर पर नहीं परन्तु अपने रोजगार से प्राप्त आमदनी के एक
भाग के तौर पर प्राप्त करते/करती हैं (उदाहरणतः सैलरी पैकेज के एक भाग
के तौर पर गाड़ी का प्रयोग)।

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes
हॉ



Please attach documents which
indicate the type of fringe benefit and
its value.

कृपया वह दस्तावेज़ संलग्न करें जो फ्रिज बेनिफिट के
प्रकार और इसके मूल्य को दर्शाते हों।

14 Please read this before answering the following question.

कृपया निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसे पढ़ें।

Market value is what you would get if you sold your household contents and personal effects. It is not the replacement or insured value.

Household contents include:

- all normal furniture such as soft furnishings (e.g. curtains)
- electrical appliances (other than fixtures such as stoves and built-in items)
- antiques and works of art.

Personal effects include:

- jewellery for personal use
- hobby collections (e.g. stamps, coins).

मार्केट वैल्यू (बाजार मूल्य) वह कीमत होती है जो आपको अपनी घरेलू सामग्री और वैयक्तिक सामान को बेचने पर मिलती है। यह प्रतिस्थापन या बीमाकृत कीमत नहीं है।

घरेलू सामग्री में शामिल है:

- सभी सामान्य फर्नीचर जैसे कि हल्का असबाब (उदाहरणतः पर्दे)
- बिजली के उपकरण (स्टोव और बिल्ट-इन वस्तुओं जैसे फिक्सचरों के अलावा)
- पुरातन अवशेष और कलात्मक वस्तुएँ।

वैयक्तिक सामान में शामिल है:

- व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आभूषण
- शौक के तौर पर किए गए संग्रह (उदाहरणतः डाक-टिकट, सिक्के)।

What is your estimate of the net value of your (and your partner's) normal household contents and personal effects?

आपकी (और आपके पार्टनर की) सामान्य घरेलू सामग्री और वैयक्तिक सामान का आपका अनुमानित निवल मूल्य क्या है?

Amount राशि	Currency मुद्रा
<input type="text"/>	<input type="text"/>

15 Do you (and/or your partner) have any life insurance policies that can be cashed in?

क्या आपकी (और/या आपके पार्टनर) की कोई जीवन बीमा पॉलिसियाँ हैं जिनके बदले में आप नकद ले सकते/सकती हैं।

Do NOT include details of life office or friendly society insurance bonds in this question. You will be asked about these in a later question.

इस प्रश्न में लाइफ ऑफिस या फ्रेंडली सोसाइटी इश्योरेंस बांड के विवरण शामिल न करें। इनके बारे में आपसे आगे एक प्रश्न में पूछा जाएगा।

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below

हाँ विवरण नीचे दें

AND/और



Please attach the policy document and the latest statement for each policy listed below.

कृपया पॉलिसी दस्तावेज़ और नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक पॉलिसी का नवीनतम स्टेटमेंट संलग्न करें।

1 Name of insurance company

बीमा कम्पनी का नाम

Policy number

पॉलिसी नम्बर

Surrender value

अभ्यर्पण मूल्य

Currency

मुद्रा

Owned by:

स्वामित्व अधिकार किसे प्राप्त है:

You <input type="checkbox"/>	Your partner <input type="checkbox"/>
आपको	आपके पार्टनर (सहजीवी) को

2 Name of insurance company

बीमा कम्पनी का नाम

Policy number

पॉलिसी नम्बर

Surrender value

अभ्यर्पण मूल्य

Currency

मुद्रा

Owned by:

स्वामित्व अधिकार किसे प्राप्त है:

You <input type="checkbox"/>	Your partner <input type="checkbox"/>
आपको	आपके पार्टनर (सहजीवी) को

15 Continued

जारी है

3 Name of insurance company

बीमा कम्पनी का नाम

Policy number

पॉलिसी नम्बर

Surrender value

अभ्यर्पण मूल्य

Currency

मुद्रा

Owned by:

स्वामित्व अधिकार किसे प्राप्त है:

You

आपको

Your partner

आपके पार्टनर (सहजीवी) को

4 Name of insurance company

बीमा कम्पनी का नाम

Policy number

पॉलिसी नम्बर

Surrender value

अभ्यर्पण मूल्य

Currency

मुद्रा

Owned by:

स्वामित्व अधिकार किसे प्राप्त है:

You

आपको

Your partner

आपके पार्टनर (सहजीवी) को

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

16 Do you (and/or your partner) receive payments from an income protection policy?

क्या आपको (और/या आपके पार्टनर) को किसी इन्कम प्रोटेक्शन पॉलिसी (आय सुरक्षा नीति) से भुगतान मिलते हैं?

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes

हाँ

 Please attach the policy document and the latest statement for this policy.

कृपया पॉलिसी दस्तावेज और इस पॉलिसी का नवीनतम स्टेटमेंट संलग्न करें।

17 Do you (and/or your partner) have any funeral bonds/ funeral investment, including a pre-paid funeral?

क्या आपके (और/या आपके पार्टनर) के कोई फ्यूनरल (अंतिम संस्कार) बांड/ फ्यूनरल निवेश हैं, इसमें पहले से भुगतान की गई फ्यूनरल सेवा शामिल है?

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below

हाँ विवरण नीचे दें

1 Name of company

कम्पनी का नाम

Name of product

उत्पाद का नाम

APIR* code (if known)

APIR* कोड (यदि ज्ञात हो)

Purchase price including instalments but not interest

ब्याज को छोड़कर किश्तों सहित क्रय मूल्य

Current value

वर्तमान मूल्य

Currency

मुद्रा

Your share

आपका भाग

 %

Partner's share

पार्टनर का भाग

 %

2 Name of company

कम्पनी का नाम

Name of product

उत्पाद का नाम

APIR* code (if known)

APIR* कोड (यदि ज्ञात हो)

Purchase price including instalments but not interest

ब्याज को छोड़कर किश्तों सहित क्रय मूल्य

Current value

वर्तमान मूल्य

Currency

मुद्रा

Your share

आपका भाग

 %

Partner's share

पार्टनर का भाग

 %


If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

18 Have you (and/or your partner) a contract to have funeral services provided for which an agreed sum has already been paid to the provider or used to buy funeral bonds assigned to the provider?

क्या आपका (और/या आपके पार्टनर) का फ्यूनरल सेवाओं प्रदान किए जाने को लेकर कोई कांटेक्ट (अनुबंध) है जिसके लिए किसी प्रदाता को पहले से ही एक सहमत राशि का भुगतान किया जा चुका है या इस सहमत राशि का प्रयोग प्रदाता को नियत किए गए फ्यूनरल बांड को खरीदने के लिए किया गया है?

No **Go to next question**
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes  **Please attach a copy of the contract.**
हाँ कृपया कांटेक्ट (अनुबंध) की एक प्रति संलग्न करें

Vehicles
गाड़ियाँ

19 Do you (and/or your partner) own any motor vehicles, boats, caravans or trailers?

क्या आपके (और/या आपके पार्टनर) के पास अपनी खुद की गाड़ियाँ, नाव, कैरावेन या ट्रेलर हैं?

Do NOT include a vehicle, boat, caravan or trailer in which you live.

उस गाड़ी, नाव, कैरावेन या ट्रेलर को शामिल न करें जिसमें आप निवास करते/करती हैं।

No **Go to next question**
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes **Give details below**
हाँ अगले प्रश्न पर जाएँ

1 Make (e.g. Toyota) मेक (उदाहरणतः Toyota)	Model (e.g. Corolla) मॉडल (उदाहरणतः Corolla)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Year साल	Market value बाज़ार मूल्य
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Amount owing बकाया राशि	Currency मुद्रा
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Your share <input type="text"/> % आपका भाग	Partner's share <input type="text"/> % आपके पार्टनर का भाग

19 *Continued*
जारी है

2 Make (e.g. Toyota) मेक (उदाहरणतः Toyota)	Model (e.g. Corolla) मॉडल (उदाहरणतः Corolla)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Year साल	Market value बाज़ार मूल्य
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Amount owing बकाया राशि	Currency मुद्रा
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Your share <input type="text"/> % आपका भाग	Partner's share <input type="text"/> % आपके पार्टनर का भाग

3 Make (e.g. Toyota) मेक (उदाहरणतः Toyota)	Model (e.g. Corolla) मॉडल (उदाहरणतः Corolla)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Year साल	Market value बाज़ार मूल्य
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Amount owing बकाया राशि	Currency मुद्रा
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Your share <input type="text"/> % आपका भाग	Partner's share <input type="text"/> % आपके पार्टनर का भाग

4 Make (e.g. Toyota) मेक (उदाहरणतः Toyota)	Model (e.g. Corolla) मॉडल (उदाहरणतः Corolla)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Year साल	Market value बाज़ार मूल्य
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Amount owing बकाया राशि	Currency मुद्रा
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Your share <input type="text"/> % आपका भाग	Partner's share <input type="text"/> % आपके पार्टनर का भाग

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

20 Give details of all your (and/or your partner's) bank accounts, including term deposits, joint accounts and accounts you hold under any other name inside and outside Australia.

अपने (और/या अपने पार्टनर) के सभी बैंक एकाउंटों के विवरण दें, इनमें टर्म डिपोजिट, संयुक्त एकाउंट और ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के बाहर आपके नाम के सभी एकाउंट शामिल हैं।



Please attach the latest statement for each account.

कृपया प्रत्येक एकाउंट के लिए नवीनतम स्टेटमेंट संलग्न करें।

1 Name of institution
संस्थान का नाम

Type of account
(e.g. savings, cheque)
एकाउंट का प्रकार
(उदाहरणतः सेविंग्स, चेक)

Account number
एकाउंट नम्बर

Account balance
एकाउंट बैलेंस

Currency
मुद्रा

Name of account holder(s)
एकाउंट धारक(कों) का नाम

2 Name of institution
संस्थान का नाम

Type of account
(e.g. savings, cheque)
एकाउंट का प्रकार
(उदाहरणतः सेविंग्स, चेक)

Account number
एकाउंट नम्बर

Account balance
एकाउंट बैलेंस

Currency
मुद्रा

Name of account holder(s)
एकाउंट धारक(कों) का नाम

3 Name of institution
संस्थान का नाम

Type of account
(e.g. savings, cheque)
एकाउंट का प्रकार
(उदाहरणतः सेविंग्स, चेक)

Account number
एकाउंट नम्बर

Account balance
एकाउंट बैलेंस

Currency
मुद्रा

Name of account holder(s)
एकाउंट धारक(कों) का नाम

4 Name of institution
संस्थान का नाम

Type of account
(e.g. savings, cheque)
एकाउंट का प्रकार
(उदाहरणतः सेविंग्स, चेक)

Account number
एकाउंट नम्बर

Account balance
एकाउंट बैलेंस

Currency
मुद्रा

Name of account holder(s)
एकाउंट धारक(कों) का नाम

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Bonds and debentures
बांड और डिबेंचर (ऋण पत्र)


21 Do you (and/or your partner) have any bonds or debentures?
क्या आपके (और/या आपके पार्टनर) के पास कोई बांड या डिबेंचर हैं?

Include investments inside and outside Australia.
Do NOT include friendly society bonds or life insurance bonds. You will be asked about these in a later question.

ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के बाहर के निवेश शामिल करें।
फ्रेंडली सोसाइटी बांड या जीवन बीमा बांड शामिल न करें। इनके बारे में आपसे आगे एक प्रश्न में पूछा जाएगा।

No Go to next question
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ
Yes Give details below
हाँ विवरण नीचे दें

AND/और

 Please attach the latest statement for each investment listed below.
नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक निवेश के लिए नवीनतम स्टेटमेंट संलग्न करें

1 Type of investment
निवेश का प्रकार

Name of company
कम्पनी का नाम

Current amount invested Currency
निवेश की गई वर्तमान राशि मुद्रा

Your share % Partner's share %
आपका भाग पार्टनर का भाग

2 Type of investment
निवेश का प्रकार

Name of company
कम्पनी का नाम

Current amount invested Currency
निवेश की गई वर्तमान राशि मुद्रा

Your share % Partner's share %
आपका भाग पार्टनर का भाग

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Money on loan
उधार पर पैसा


22 Do you (and/or your partner) have money on loan to another person or organisation?
क्या आपने (और/या आपके पार्टनर ने) किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार पर पैसे दिए हैं?

Include all loans, whether they are made to family members, other people or organisations or trusts.

सभी तरह के उधार शामिल करें, भले ही उधार परिवार के किसी सदस्य, अन्य लोगों या संस्थाओं या ट्रस्ट को दिया गया हो।

No Go to next question
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ
Yes Give details below
हाँ विवरण नीचे दें

AND/और

 Please attach a document which gives details for each loan (if available).
कृपया एक दस्तावेज़ संलग्न करें जिसमें प्रत्येक उधार के विवरण दिए गए हों (यदि उपलब्ध हों)

1 Who did you lend the money to?
आपने पैसे किसे उधार दिए हैं?

Date lent Amount lent
उधार देने की दिनांक उधार दी गई राशि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल	
/	/	/	

Current balance of loan Currency
उधार की वर्तमान देय राशि मुद्रा

Lent by you % Lent by your partner %
आपके द्वारा दिया गया उधार आपके पार्टनर द्वारा दिया गया उधार

2 Who did you lend the money to?
आपने पैसे किसे उधार दिए हैं?

Date lent Amount lent
उधार देने की दिनांक उधार दी गई राशि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल	
/	/	/	

Current balance of loan Currency
उधार की वर्तमान देय राशि मुद्रा

Lent by you % Lent by your partner %
आपके द्वारा दिया गया उधार आपके पार्टनर द्वारा दिया गया उधार

If you (and/or your partner) have more than 2 loans, attach a separate sheet with details.

यदि आपके (और/या आपके पार्टनर) के 2 से अधिक उधार हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

23 Do you (and/or your partner) own any shares, options, rights, convertible notes, warrants or other securities **LISTED** on an Australian Stock Exchange (e.g. ASX, NSX, APX or Chi-X)* or a stock exchange outside Australia? क्या आपके (और/या आपके पार्टनर) के पास ऑस्ट्रेलियाई शेयर बाजार (उदाहरणतः ASX, NSX, APX या Chi-X)* अथवा ऑस्ट्रेलिया के बाहर किसी अन्य शेयर बाजार में सूचीबद्ध कोई शेयर, विकल्प, अधिकार, परिवर्तनीय नोट्स, वारंट या अन्य सिक्योरिटियाँ हैं?

Include shares traded in exempt stock markets.

Do NOT include:

- managed investments
- investments purchased with a margin loan.

छूट-प्राप्त शेयर बाजार में ट्रेड किए गए शेयर शामिल करें।

इन्हें शामिल न करें:

- मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स (प्रबंधित निवेश)
- मार्जिन लोन (उपांत उधार) से खरीदे गए निवेश।

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below

हाँ विवरण नीचे दें

AND

और



Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below.

कृपया नवीनतम स्टेटमेंट(ट्स) संलग्न करें जिनमें नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक शेयर के लिए आपकी शेयर होल्डिंग का विवरण दिया गया हो।

1 Name of company

कम्पनी का नाम

Type of share/investment (e.g. ordinary share, option)

शेयर/निवेश का प्रकार (उदाहरणतः साधारण शेयर, विकल्प)

ASX* code (if known)

ASX* कोड (यदि ज्ञात हो)

Current market value (if share is NOT listed on the ASX*)

वर्तमान बाजार मूल्य (यदि शेयर ASX* पर सूचीबद्ध न हो)

Country (if share is NOT listed on the ASX*)

देश (यदि शेयर ASX* पर सूचीबद्ध न हो)

Number of shares or other securities

शेयरों या अन्य सिक्योरिटियों की संख्या

Your share %

आपका भाग

Partner's share %

पार्टनर का भाग

23 Continued

जारी है

2 Name of company

कम्पनी का नाम

Type of share/investment (e.g. ordinary share, option)

शेयर/निवेश का प्रकार (उदाहरणतः साधारण शेयर, विकल्प)

ASX* code (if known)

ASX* कोड (यदि ज्ञात हो)

Current market value (if share is NOT listed on the ASX*)

वर्तमान बाजार मूल्य (यदि शेयर ASX* पर सूचीबद्ध न हो)

Country (if share is NOT listed on the ASX*)

देश (यदि शेयर ASX* पर सूचीबद्ध न हो)

Number of shares or other securities

शेयरों या अन्य सिक्योरिटियों की संख्या

Your share %

आपका भाग

Partner's share %

पार्टनर का भाग

3 Name of company

कम्पनी का नाम

Type of share/investment (e.g. ordinary share, option)

शेयर/निवेश का प्रकार (उदाहरणतः साधारण शेयर, विकल्प)

ASX* code (if known)

ASX* कोड (यदि ज्ञात हो)

Current market value (if share is NOT listed on the ASX*)

वर्तमान बाजार मूल्य (यदि शेयर ASX* पर सूचीबद्ध न हो)

Country (if share is NOT listed on the ASX*)

देश (यदि शेयर ASX* पर सूचीबद्ध न हो)

Number of shares or other securities

शेयरों या अन्य सिक्योरिटियों की संख्या

Your share %

आपका भाग

Partner's share %

पार्टनर का भाग

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

24 Do you (and/or your partner) own any shares, options or rights, issued in a PUBLIC company NOT listed on any stock exchange inside or outside Australia?

क्या आपके (और/या आपके पार्टनर) के पास किसी ऐसी सरकारी कम्पनी द्वारा जारी किए गए कोई शेयर, विकल्प या अधिकार हैं जो ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया से बाहर किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है?

Include shares traded in exempt stock markets.

Do NOT include:

- managed investments
- investments purchased with a margin loan.

छूट-प्राप्त शेयर बाजार में ट्रेड किए गए शेयर शामिल करें।

इन्हें शामिल न करें:

- मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स (प्रबंधित निवेश)
- मार्जिन लोन (उपांत उधार) से खरीदे निवेश।

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below

हाँ विवरण नीचे दें

AND

और



Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below.

कृपया नवीनतम स्टेटमेंट(ट्स) संलग्न करें जिनमें नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक शेयर के लिए आपकी शेयर होल्डिंग का विवरण दिया गया हो।

1 Name of company/कम्पनी का नाम

Type of shares

शेयरों का प्रकार

Number of shares

शेयरों की संख्या

Current market value

वर्तमान बाजार मूल्य

Currency

मुद्रा

Your share %

आपका भाग

Partner's share %

पार्टनर का भाग

2 Name of company/कम्पनी का नाम

Type of shares

शेयरों का प्रकार

Number of shares

शेयरों की संख्या

Current market value

वर्तमान बाजार मूल्य

Currency

मुद्रा

Your share %

आपका भाग

Partner's share %

पार्टनर का भाग

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Managed investments and superannuation

मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स और सुपरएनुएशन (प्रबंधित निवेश और सेवा-निवृत्ति)

25 Do you (and/or your partner) have any managed investments, inside or outside Australia?

क्या आपके (और/या आपके पार्टनर) के ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया से बाहर कोई मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं?

Include investment trusts, personal investment plans, life office and friendly society bonds.

Do NOT include:

- life insurance policies or superannuation and rollover investments
- investments purchased with a margin loan.

* APIR is a commonly used code for fund managers in Australia to identify individual financial products.

इसमें निवेश ट्रस्ट, व्यक्तिगत निवेश योजनाएँ, लाइफ ऑफिस और फ्रेंडली सोसाइटी बांड शामिल करें।

इन्हें शामिल न करें:

- जीवन बीमा पॉलिसियाँ या सुपरएनुएशन और रोलओवर निवेश
- मार्जिन लोन (उपांत उधार) से खरीदे निवेश।

* APIR व्यक्तिगत वित्तीय उत्पादों की पहचान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में फंड मैनेजर्स के लिए आम-तौर पर प्रयोग किया जाने वाला कोड है।

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below

हाँ विवरण नीचे दें

AND

और



Please attach documents which show details for each investment listed below.

कृपया नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक निवेश का विवरण देने वाले दस्तावेज़ संलग्न करें।

1 Name of company

कम्पनी का नाम

Name of product (e.g. investment trust)

उत्पाद का नाम (उदाहरणतः निवेश ट्रस्ट)

Type of product/option (e.g. balanced, growth)

उत्पाद/विकल्प का प्रकार (उदाहरणतः बैलेंस्ड, ग्रोथ)

APIR* code (if known)

APIR* कोड (यदि ज्ञात हो)

Number (if applicable)

नम्बर (यदि लागू हो)

Current market value of investment

निवेश का वर्तमान बाजार मूल्य

Currency

मुद्रा

Your share %

आपका भाग

Partner's share %

पार्टनर का भाग

25 Continued

जारी है

2 Name of company
कम्पनी का नाम

Name of product (e.g. investment trust)
उत्पाद का नाम (उदाहरणतः निवेश ट्रस्ट)

Type of product/option (e.g. balanced, growth)
उत्पाद/विकल्प का प्रकार (उदाहरणतः बैलेंस्ड, ग्रोथ)

APIR* code (if known) Number (if applicable)
APIR* कोड (यदि ज्ञात हो) नम्बर (यदि लागू हो)

Current market value of investment Currency
निवेश का वर्तमान बाजार मूल्य मुद्रा

Your share % Partner's share %
आपका भाग पार्टनर का भाग

3 Name of company
कम्पनी का नाम

Name of product (e.g. investment trust)
उत्पाद का नाम (उदाहरणतः निवेश ट्रस्ट)

Type of product/option (e.g. balanced, growth)
उत्पाद/विकल्प का प्रकार (उदाहरणतः बैलेंस्ड, ग्रोथ)

APIR* code (if known) Number (if applicable)
APIR* कोड (यदि ज्ञात हो) नम्बर (यदि लागू हो)

Current market value of investment Currency
निवेश का वर्तमान बाजार मूल्य मुद्रा

Your share % Partner's share %
आपका भाग पार्टनर का भाग

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।


26 Do you (and/or your partner) own any managed investments or securities purchased with a margin loan?
क्या आपके (और/या आपके पार्टनर) के पास अपने कोई ऐसे मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स या सिक्योरिटीयाँ हैं जिन्हें आपने मार्जिन लोन (उपांत उधार) के साथ खरीदा हो?

No Go to next question
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below
हाँ विवरण नीचे दें

AND

और

 Please attach the latest statement detailing your margin loan(s) for each investment.

कृपया प्रत्येक निवेश के लिए आपके मार्जिन लोन (एक से अधिक मार्जिन लोन) का विवरण प्रदान करती हुई नवीनतम स्टेटमेंट संलग्न करें।

1 Name of margin loan company
मार्जिन लोन कम्पनी का नाम

Current portfolio APIR* code (if known)
वर्तमान पोर्टफोलियो APIR* कोड (यदि ज्ञात हो)

Current margin loan balance Your share Partner's share
वर्तमान मार्जिन लोन देय राशि आपका भाग पार्टनर का भाग

2 Name of margin loan company
मार्जिन लोन कम्पनी का नाम

Current portfolio APIR* code (if known)
वर्तमान पोर्टफोलियो APIR* कोड (यदि ज्ञात हो)

Current margin loan balance Your share Partner's share
वर्तमान मार्जिन लोन देय राशि आपका भाग पार्टनर का भाग

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

- 27 In the last 12 months have you (and/or your partner) borrowed an amount which is secured against your home?
क्या पिछले 12 महीनों में आपने (और/या आपके पार्टनर) ने अपने घर को आरक्षित रखकर कोई राशि उधार ली है?

Include:

- Home Equity Conversion Loan
- Reverse Equity Mortgage.

Do NOT include:

- a mortgage taken out to purchase your home.

इसमें शामिल करें:

- होम इक्विटी कन्वर्शन लोन
- रिवर्स इक्विटी मॉर्टगेज


इन्हें शामिल न करें:

- अपना घर खरीदने के लिए लिया गया ऋण

No Go to next question
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below
हाँ विवरण नीचे दें

AND
और

 Please attach a copy of the loan agreement or contract.
कृपया उधार समझौते या कांट्रैक्ट (अनुबंध) की एक प्रति संलग्न करें।

Name of the organisation agreement entered into with
उस संस्था का नाम जिसके साथ समझौता किया गया है

Address of organisation
संस्था का पता

Country
कंट्री

Entered into by: You Your partner
किसके द्वारा किया गया: आपके द्वारा आपके पार्टनर के द्वारा

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

- 28 Please read this before answering the following question.

कृपया निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसे पढ़ें।

YOU should answer this question ONLY if you (and/or your partner) are age pension age or claiming Age Pension.

आपको इस प्रश्न का उत्तर केवल तभी देना चाहिए यदि आपकी (और/या आपके पार्टनर की) उम्र आयु पेंशन की है या आप आयु पेंशन का क्लेम कर रहे/रही हैं।

See the table below for age pension qualifying age.

पेंशन आयु की आयु के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

Date of birth On or before 31 December 1953	Qualifying age You meet the age requirements now
1 January 1954 to 30 June 1955	66 years
1 July 1955 to 31 December 1956	66 years and 6 months
From 1 January 1957	67 years
जन्म तिथि 31 दिसम्बर 1953 को या इससे पहले	योग्यता के लिए आयु अब आप आयु संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते/ करती हैं
1 जनवरी 1954 से 30 जून 1955	66 साल
1 जुलाई 1955 से 31 दिसम्बर 1956	66 साल और 6 महीने
1 जनवरी 1957 से	67 साल

28 *Continued*

जारी है

Do you (and/or your partner) have any money invested in Australian superannuation where the fund is still in accumulation phase and not paying a pension?

क्या आपका (और/या आपके पार्टनर का) किसी ऐसे ऑस्ट्रेलियाई सुपरएनुएशन में धन निवेश है जहाँ फंड अभी भी संचय चरण में है और पेंशन का भुगतान नहीं कर रहा है?

Include:

- superannuation funds such as retail, industry, corporate or employer and public sector
- retirement savings accounts
- any money held in a Self Managed Superannuation Fund (SMSF) and Small APRA Fund (SAF) if the funds are complying.

इसमें शामिल करें:

- सुपरएनुएशन फंड जैसे कि रिटेल, उद्योग, कॉर्पोरेट या कार्य-नियोक्ता और सरकारी क्षेत्र
- रिटायरमेंट सेविंग्स एकाउंट्स
- यदि फंड अनुपालन कर रहे हैं, तो किसी सेल्फ मैनेज्ड सुपरएनुएशन फंड (SMSF) और स्मॉल APRA फंड (SAF) में रखी धन-राशि।

No **Go to next question**
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes **Give details in the next column**
हाँ विवरण अगले कॉलम में दें

AND
और



Please attach the latest statement for each superannuation investment. If you have a SMSF or SAF, attach the financial returns and member statement for the fund.

कृपया प्रत्येक सुपरएनुएशन निवेश के लिए नवीनतम स्टेटमेंट संलग्न करें। यदि आपके पास SMSF या SAF है, तो फंड के वित्तीय रिटर्न्स और इसका मेम्बर स्टेटमेंट संलग्न करें।

28 *Continued*

जारी है

1 Name of institution/fund manager

संस्थान/फंड मैनेजर का नाम

Name of fund

फंड का नाम

Product reference number

उत्पाद संदर्भ संख्या

Date of joining/investment

जुड़ने/निवेश करने की तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

Current market value

वर्तमान बाजार मूल्य

Currency

मुद्रा

Owned by:

स्वामित्व अधिकार किसे प्राप्त है:

You

Your partner

आपको

आपके पार्टनर को

2 Name of institution/fund manager

संस्थान/फंड मैनेजर का नाम

Name of fund

फंड का नाम

Product reference number

उत्पाद संदर्भ संख्या

Date of joining/investment

जुड़ने/निवेश करने की तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

Current market value

वर्तमान बाजार मूल्य

Currency

मुद्रा

Owned by:

स्वामित्व अधिकार किसे प्राप्त है:

You

Your partner

आपको

आपके पार्टनर को

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

29 Please read this before answering the following question.

कृपया निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसे पढ़ें।

An income stream is a regular series of payments which may be made for a lifetime or fixed period by a financial institution or employer subject to Australian prudential regulations.

Where the income stream is from a country other than Australia it will be assessed differently than if it were from a source inside Australia.

An income stream may be payable by:

- a financial institution
- a retirement savings account
- a superannuation fund
- a Self Managed Superannuation Fund (SMSF)
- a Small APRA Fund (SAF).

Types of income streams include:

- account-based pension (also known as allocated pension)
- market-linked pension (also known as term allocated pension)
- annuities
- defined benefit pension (e.g. ComSuper pension, State Super pension)
- superannuation pension (non-defined benefit).

आय स्रोत भुगतानों की एक नियमित श्रृंखला होती है जिसकी अदायगी ऑस्ट्रेलियाई विवेकसम्मत विनियमों के अधीन किसी वित्तीय संस्थान या नियोक्ता द्वारा जीवन-भर या किसी निश्चित अवधि के लिए की जा सकती है।

उस परिस्थिति में जहाँ आय स्रोत ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी अन्य देश से हो, तो इसका आकलन स्रोत के ऑस्ट्रेलिया से होने की तुलना में अलग तरीके से किया जाएगा।

आय स्रोत इनके द्वारा देय हो सकता है:

- वित्तीय संस्थान
- रिटायरमेंट सेविंग्स एकाउंट
- सुपरएनुएशन फंड
- सेल्फ मैनेज्ड सुपरएनुएशन फंड (SMSF)
- स्मॉल APRA फंड (SAF)

आय स्रोतों के प्रकार हैं:

- एकाउंट-आधारित पेंशन (इसे आवंटित पेंशन भी कहते हैं)
- बाजार से जुड़ी पेंशन (इसे अवधि आवंटित पेंशन भी कहते हैं)
- वार्षिक वृत्ति
- परिभाषित लाभ पेंशन (उदाहरणतः ComSuper पेंशन, State Super पेंशन)
- सुपरएनुएशन पेंशन (गैर-परिभाषित लाभ)

29 Continued

जारी है

Do you (and/or your partner) receive income from any income stream products?


यदि आपको (और/या आपके पार्टनर को) किन्हीं आय स्रोत उत्पादों से आय मिलती है?

No Go to next question
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below
हाँ विवरण नीचे दें

AND

और

 You (and/or your partner) will need to attach a **Details of Income Stream Product** form (SA330) or a similar schedule, for each Australian income stream product. The form or similar schedule must be completed by your product provider or the trustee of the Self Managed Superannuation Fund (SMSF) or Small APRA Fund (SAF) or the SMSF administrator.

If you do not have this form, go to our website

servicesaustralia.gov.au/forms

आपको (और/या आपके पार्टनर को) प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई आय स्रोत उत्पाद के लिए **Details of Income Stream Product** form (SA330) (आय स्रोत उत्पाद के विवरण फॉर्म (SA330)) या इसके समान कोई सूची-पत्र संलग्न करने की ज़रूरत होगी। फॉर्म या समान सूची-पत्र आपके उत्पाद प्रदाता या सेल्फ मैनेज्ड सुपरएनुएशन फंड (SMSF) या स्मॉल APRA फंड (SAF) या SMSF प्रबंधक द्वारा भरा जाना चाहिए।

यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट **servicesaustralia.gov.au/forms** पर जाएँ।

1 Name of product provider/SMSF/SAF

उत्पाद प्रदाता/SMSF/SAF का नाम

Name of income stream

आय स्रोत का नाम

Product reference number

उत्पाद संदर्भ संख्या

Commencement date

प्रारम्भ करने की दिनांक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

Owned by:

स्वामित्व अधिकार किसे प्राप्त है:

You

आपको

Your partner

आपके पार्टनर को

जारी है

2 Name of product provider/SMSF/SAF

उत्पाद प्रदाता/SMSF/SAF का नाम

Name of income stream

आय स्रोत का नाम

Product reference number

उत्पाद संदर्भ संख्या

Commencement date

प्रारम्भ करने की दिनांक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

Owned by:

स्वामित्व अधिकार किसे प्राप्त है:

You

आपको

Your partner

आपके पार्टनर को

If you (and/or your partner) receive more than 2 income stream products, attach a separate sheet with details.

यदि आप (और/या आपका पार्टनर) 2 से अधिक आय स्रोत उत्पाद प्राप्त करते/करती हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Other investments

अन्य निवेश

30 Do you (and/or your partner) have any money invested in, or do you receive income from, any other investments not declared elsewhere on this form?

क्या आपने (और/या आपके पार्टनर ने) किसी ऐसे अन्य निवेश में पूँजी लगाई है, या किसी ऐसे अन्य निवेश से आपको आमदनी मिलती है जिसे इस फॉर्म में कहीं और घोषित नहीं किया गया है?

Include all investments inside and outside Australia not declared elsewhere on this form.

Do NOT include real estate inside or outside Australia, private trusts, private companies or business. You will be asked about these in later questions.

ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया से बाहर के ऐसे सभी निवेश शामिल करें जिन्हें इस फॉर्म में कहीं और घोषित नहीं किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया से बाहर के रियल एस्टेट (अचल संपत्ति), प्राइवेट ट्रस्ट (निजी न्यास), गैर-सरकारी कंपनियों या व्यापारों को शामिल न करें। इनके बारे में आपसे आगे एक प्रश्न में पूछा जाएगा।

No **Go to next question**

नहीं **अगले प्रश्न पर जाएँ**

Yes **Give details below**

हाँ **विवरण नीचे दें**

AND

और



Please attach documents which show details for each investment listed below.

कृपया नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक निवेश का विवरण देने वाले दस्तावेज़ संलग्न करें।

1 Type of investment

निवेश का प्रकार

Name of organisation/company

संस्था/कम्पनी का नाम

Current value of investment

निवेश का वर्तमान मूल्य

Income received in last 12 months

पिछले 12 महीनों में मिली आमदनी

Currency

मुद्रा

Your share

आपका भाग

 %

Partner's share

आपके पार्टनर का भाग

 %

2 Type of investment

निवेश का प्रकार

Name of organisation/company

संस्था/कम्पनी का नाम

Current value of investment

निवेश का वर्तमान मूल्य

Income received in last 12 months

पिछले 12 महीनों में मिली आमदनी

Currency

मुद्रा

Your share

आपका भाग

 %

Partner's share

आपके पार्टनर का भाग

 %**3** Type of investment

निवेश का प्रकार

Name of organisation/company

संस्था/कम्पनी का नाम

Current value of investment

निवेश का वर्तमान मूल्य

Income received in last 12 months

पिछले 12 महीनों में मिली आमदनी

Currency

मुद्रा

Your share

आपका भाग

 %

Partner's share

आपके पार्टनर का भाग

 %

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Gifting

भेंट देना

- 31**
- In the last 5 years have you (and/or your partner) given away, sold for less than their value, or surrendered a right to, any cash, assets, property or income?

पिछले 5 वर्षों में क्या आपने (और/या आपके पार्टनर ने) किसी नकद, संपत्तियों, प्रॉपर्टी या आमदनी को किसी को दिया है, उसके मूल्य से कम में किसी को बेचा है, या उसपर अपने अधिकार को त्याग दिया है?

Include forgiven loans and shares in private companies.

विदेशी ऋण और गैर-सरकारी कम्पनियों में शेयरों को शामिल करें।

No **Go to next question**

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes **Give details below**

हाँ विवरण नीचे दें

- 1**
- What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, car, second home, land, farm)

आपने कौन सी वस्तु दी या उसे उसकी कीमत से कम दाम में बेचा (उदाहरणतः: पैसे, कार, अपना दूसरा घर, जमीन, कृषिभूमि)

Date given or sold

देने या बेचने की तिथि

What it was worth

इसकी कीमत क्या थी

 Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Amount you received for the item

आपको वस्तु के लिए क्या राशि मिली थी

Currency

मुद्रा

Your share

आपका भाग

 %

Partner's share

पार्टनर का भाग

 %

Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)?

क्या यह Special Disability Trust (SDT) को दी गई एक भेंट थी?

 No / Yes
नहीं / हाँ

2 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, car, second home, land, farm)

आपने कौन सी वस्तु दी या उसे उसकी कीमत से कम दाम में बेचा
(उदाहरणतः: पैसे, कार, अपना दूसरा घर, ज़मीन, कृषिभूमि)

Date given or sold
देने या बेचने की तिथि

What it was worth
इसकी कीमत क्या थी

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Amount you received for the item

आपको वस्तु के लिए क्या राशि मिली थी

Currency
मुद्रा

Your share %
आपका भाग

Partner's share %
पार्टनर का भाग

Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)?

क्या यह Special Disability Trust (SDT) को दी गई एक भेंट थी?

No
नहीं

Yes
हाँ

3 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, car, second home, land, farm)

आपने कौन सी वस्तु दी या उसे उसकी कीमत से कम दाम में बेचा
(उदाहरणतः: पैसे, कार, अपना दूसरा घर, ज़मीन, कृषिभूमि)

Date given or sold
देने या बेचने की तिथि

What it was worth
दिन/महीना/साल

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Amount you received for the item

आपको वस्तु के लिए क्या राशि मिली थी

Currency
मुद्रा

Your share %
आपका भाग

Partner's share %
पार्टनर का भाग

Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)?

क्या यह Special Disability Trust (SDT) को दी गई एक भेंट थी?

No
नहीं

Yes
हाँ

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Other pension-type payments from outside Australia
ऑस्ट्रेलिया के बाहर के पेंशन-प्रकार के अन्य भुगतान

32 Do you (and/or your partner) receive income from outside Australia?

क्या आपको (और/या आपके पार्टनर) को ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आमदनी मिलती है?

Include:

- payments for retirement or old age
- payments for disability or invalidity
- payments for widowhood or survivorship
- payments for children
- superannuation payments
- payments for war injury
- payments for war service
- payments as a war widow
- war restitution payments
- compensation payments
- other pensions, benefits or allowances from outside Australia.

इसमें शामिल है:

- रिटायरमेंट या बुढ़ापे के लिए भुगतान
- विकलांगता या असमर्थता के लिए भुगतान
- विधवा या विधुर होने की स्थिति या उत्तरजीविता के लिए भुगतान
- बच्चों के लिए भुगतान
- सुपरएनुएशन भुगतान
- युद्ध में लगी चोट के लिए भुगतान
- युद्ध में सेवा हेतु भुगतान
- युद्ध में मृत सैनिक की विधवा के तौर पर मिलने वाला भुगतान
- युद्ध क्षतिपूर्ति भुगतान
- मुआवज़ा भुगतान
- ऑस्ट्रेलिया के बाहर से मिलने वाली अन्य पेंशन, बेनेफिट्स (लाभ) या भत्ते

No **Go to next question**
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes **Give details on the next page**
हाँ अगले पृष्ठ पर विवरण दें

AND**और**

Please attach the most recent document showing payment details for each of the pensions, benefits or allowances paid (e.g. pension certificate).

कृपया सबसे हाल ही का वह दस्तावेज़ संलग्न करें जिसमें भुगतान की गई प्रत्येक पेंशन, बेनेफिट (लाभ) या भत्ते के लिए भुगतान विवरण दर्शाए गए हों (उदाहरणतः: पेंशन सर्टिफिकेट)।

1 Type of payments

भुगतान के प्रकार

Paid in name of

भुगतान जिसके नाम में हुआ है

Authority paying it

भुगतान करने वाला प्राधिकरण

Country paying it

भुगतान करने वाला देश

Reference number

रेफरेंस नम्बर (संदर्भ संख्या)

Amount of payment
before deductionsकटौतियों से पहले भुगतान की
गई राशि

Currency of payment

भुगतान की मुद्रा

How often paid?

भुगतान कितनी बार किया जाता है?

Received by:

प्राप्तकर्ता व्यक्ति का नाम:

You Your partner
आप आपका पार्टनर**2** Type of payments

भुगतान के प्रकार

Paid in name of

भुगतान जिसके नाम में हुआ है

Authority paying it

भुगतान करने वाला प्राधिकरण

Country paying it

भुगतान करने वाला देश

Reference number

रेफरेंस नम्बर (संदर्भ संख्या)

Amount of payment
before deductionsकटौतियों से पहले भुगतान की
गई राशि

Currency of payment

भुगतान की मुद्रा

How often paid?

भुगतान कितनी बार किया जाता है?

Received by:

प्राप्तकर्ता व्यक्ति का नाम:

You Your partner
आप आपका पार्टनरIf you (and/or your partner) receive more than 2 types
of payments, attach a separate sheet with details.यदि आपको (और/या आपके पार्टनर को) भुगतान के 2 से अधिक प्रकार
प्राप्त होते हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।**33** Will you (and/or your partner) be claiming any pension,
benefit, allowance, superannuation, compensation or
similar payment in the next 12 months?क्या आप (और/या आपका पार्टनर) अगले 12 महीनों में कोई पेंशन, बेनेफिट
(लाभ), भत्ता, सुपरएनुएशन, मुआवजा या समान भुगतान का क्लेम करेगा?No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below

हाँ विवरण नीचे दें

1 Type of payment

भुगतान का प्रकार

Country claiming from

उस देश का नाम जहाँ से क्लेम किया जा रहा है

When are you going to claim?

आप कब क्लेम करने वाले हैं?

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Who is claiming this payment?

इस भुगतान का क्लेम कौन कर रहा है?

You Your partner
आप आपका पार्टनर**2** Type of payment

भुगतान के प्रकार

Country claiming from

उस देश का नाम जहाँ से क्लेम किया जा रहा है

When are you going to claim?

आप कब क्लेम करने वाले हैं?

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Who is claiming this payment?

इस भुगतान का क्लेम कौन कर रहा है?

You Your partner
आप आपका पार्टनरIf you (and/or your partner) have more than 2 types of
payments, attach a separate sheet with details.यदि आपके (और/या आपके पार्टनर के) भुगतान के 2 से अधिक प्रकार हैं,
तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Money from boarders and lodgers

बोर्डर्स और लॉजर-किराएदारों से मिलने वाली धन-राशि

34 Do you (and/or your partner) receive money from any boarders or lodgers living with you?

क्या आपको (और/या आपके पार्टनर को) आपके साथ रहने वाले किन्हीं बोर्डर्स या लॉजर-किराएदारों से धन-राशि मिलती है?

Include boarders or lodgers who live with you or in accommodation at the property you live in (e.g. granny flat).

Do NOT include family members (e.g. son, daughter, parent).

उन बोर्डर्स या लॉजर-किराएदारों को शामिल करें जो आपके साथ रहते हैं या उसी प्रॉपर्टी (संपत्ति) में रहते हैं जहाँ आप निवास करते/करती हैं (उदाहरणतः ग्रैनी फ्लैट)।

परिवार के सदस्यों (उदाहरणतः पुत्र, पुत्री, माता-पिता) को शामिल न करें।

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below

हाँ विवरण नीचे दें

1 Name of boarder or lodger

बोर्डर या लॉजर-किराएदार का नाम

Relationship to you (e.g. friend, cousin)

आपके साथ सम्बन्ध (उदाहरणतः मित्र, चचेरे या ममेरे भाई-बहन)

Number of meals you provide each day

आपके द्वारा हर रोज़ उपलब्ध कराए जाने वाले आहारों की संख्या

each day हर रोज़

Amount paid for board or lodging

बोर्ड या लॉजिंग-किराएदारी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि

Currency of payment
भुगतान की मुद्रा

Date boarder or lodger started paying

बोर्डर या लॉजर-किराएदार द्वारा भुगतान शुरू किए जाने की तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

How often paid

भुगतान कितनी बार किया जाता है

34 Continued

जारी है

2 Name of boarder or lodger

बोर्डर या लॉजर-किराएदार का नाम

Relationship to you (e.g. friend, cousin)

आपके साथ सम्बन्ध (उदाहरणतः मित्र, चचेरे या ममेरे भाई-बहन)

Number of meals you provide each day

आपके द्वारा हर रोज़ उपलब्ध कराए जाने वाले आहारों की संख्या

each day हर रोज़

Amount paid for board or lodging

बोर्ड या लॉजिंग-किराएदारी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि

Currency of payment

भुगतान की मुद्रा

Date boarder or lodger started paying

बोर्डर या लॉजर-किराएदार द्वारा भुगतान शुरू किए जाने की तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

How often paid

भुगतान कितनी बार किया जाता है

3 Name of boarder or lodger

बोर्डर या लॉजर-किराएदार का नाम

Relationship to you (e.g. friend, cousin)

आपके साथ सम्बन्ध (उदाहरणतः मित्र, चचेरे या ममेरे भाई-बहन)

Number of meals you provide each day

आपके द्वारा हर रोज़ उपलब्ध कराए जाने वाले आहारों की संख्या

each day हर रोज़

Amount paid for board or lodging

बोर्ड या लॉजिंग-किराएदारी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि

Currency of payment

भुगतान की मुद्रा

Date boarder or lodger started paying

बोर्डर या लॉजर-किराएदार द्वारा भुगतान शुरू किए जाने की तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

How often paid

भुगतान कितनी बार किया जाता है

If you (and/or your partner) have more than 3 boarders or lodgers, attach a separate sheet with details.

यदि आपके (और/या आपके पार्टनर के) 3 से अधिक बोर्डर या लॉजर-किराएदार हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

35 Do you (and/or your partner) receive payments from Australian Government sources other than Centrelink income support payments?

क्या आपको (और/या आपके पार्टनर को) Centrelink आय सहायता भुगतानों के अलावा ऑस्ट्रेलियाई सरकार के स्रोतों से भुगतान प्राप्त होते हैं?

For example, an Australian family assistance payment.
उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई पारिवारिक सहायता भुगतान

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below

हाँ विवरण नीचे दें

AND

और



Please attach a letter or other document(s) that shows the reference number and details for each payment (other than payments made by us).

कृपया एक पत्र या अन्य दस्तावेज़ (एक से अधिक दस्तावेज़) संलग्न करें जिसमें प्रत्येक भुगतान (हमारे द्वारा किए गए भुगतानों के अलावा) के लिए रेफरेंस नम्बर और विवरण दर्शाया गया हो

1 Type of payment

भुगतान का प्रकार

Who pays it/इसका भुगतान कौन करता है

Reference number (if known)

रेफरेंस नम्बर (यदि ज्ञात हो)

Date commenced (if known)

शुरुआत किए जाने की तिथि (यदि ज्ञात हो)

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Paid to:

भुगतान किसे किया गया:

You

आपको

Your partner

आपके पार्टनर को

2 Type of payment

भुगतान का प्रकार

Who pays it/इसका भुगतान कौन करता है

Reference number (if known)

रेफरेंस नम्बर (यदि ज्ञात हो)

Date commenced (if known)

शुरुआत किए जाने की तिथि (यदि ज्ञात हो)

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Paid to:

भुगतान किसे किया गया:

You

आपको

Your partner

आपके पार्टनर को

If you (and/or your partner) have more than 2 payments, attach a separate sheet with details.

यदि आपके (और/या आपके पार्टनर के) भुगतान के 2 से अधिक प्रकार हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Lump sum payment

एकमुश्त भुगतान

36 In the last 12 months, have you (and/or your partner) received a lump sum payment that is not declared elsewhere on this form?

पिछले 12 महीनों में, क्या आपको (और/या आपके पार्टनर) को कोई ऐसा एकमुश्त भुगतान मिला था जिसे इस फॉर्म में कहीं और घोषित नहीं किया गया है?

Do NOT include compensation, insurance or damages lump sum payments. You will be asked about these in a later question.

मुआवज़े, बीमा या हर्जाने से संबंधित एकमुश्त भुगतान शामिल न करें। इनके बारे में आपसे आगे एक प्रश्न में पूछा जाएगा।

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below

हाँ विवरण नीचे दें

1 Type of lump sum

एकमुश्त भुगतान का प्रकार

Amount paid

भुगतान की गई राशि

Currency

मुद्रा

Date paid

भुगतान करने की तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Payment received by:

भुगतान किसने प्राप्त किया:

You Your partner
आपने आपके पार्टनर ने

2 Type of lump sum

एकमुश्त भुगतान का प्रकार

Amount paid

भुगतान की गई राशि

Currency

मुद्रा

Date paid

भुगतान करने की तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Payment received by:

भुगतान किसने प्राप्त किया:

You Your partner
आपने आपके पार्टनर ने

If you (and/or your partner) have more than 2 lump sum payments, attach a separate sheet with details.

यदि आपके (और/या आपके पार्टनर के) 2 से अधिक एकमुश्त भुगतान हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Other payments

अन्य भुगतान

37 Do you (and/or your partner) receive any income from other sources, not previously mentioned on this form?
क्या आपको (और/या आपके पार्टनर को) किन्हीं ऐसे अन्य स्रोतों से कोई आय मिलती है जिन्हें इस फॉर्म में पहले बताया नहीं गया है?

Include income from:

- gratuities
- other government departments (e.g. study allowance, War Widow's/Service Pension)
- match or sporting payments
- other payments made from inside or outside Australia
- any other income you have not included elsewhere on this form.

Note: Income includes any payment in kind, such as non-monetary payments for services.

Do NOT include compensation or damages payments. You will be asked about these in a later question.

इन स्रोतों से होने वाली आय शामिल करें:

- ऐच्छिक दान
- अन्य सरकारी विभाग (उदाहरणतः पढ़ाई भत्ता, युद्ध में मृत हुए सैनिक की विधवा के लिए पेंशन/सेवा पेंशन)
- मैच या खेलकूद से संबंधित भुगतान
- ऑस्ट्रेलिया से या ऑस्ट्रेलिया के बाहर से किए गए अन्य भुगतान
- कोई अन्य आय जिसे आपने इस फॉर्म में नहीं और शामिल नहीं किया है।

ध्यान दें: आय में वस्तुओं के रूप में भुगतान जैसे कि सेवाओं के लिए गैर-वित्तीय भुगतान शामिल हैं।

मुआवजे या हर्जाने से संबंधित भुगतान शामिल न करें। इनके बारे में आपसे आगे एक प्रश्न में पूछा जाएगा।

No **Go to next question**

नहीं *अगले प्रश्न पर जाएँ*

Yes **Give details in the next column**

हाँ *विवरण अगले कॉलम में दें*

AND

और



Please attach documents which show details of the payment (e.g. statement from other Government departments).

कृपया भुगतान का विवरण देने वाले दस्तावेज़ संलग्न करें (उदाहरणतः अन्य सरकारी विभागों से मिले स्टेटमेंट्स)।

37 *Continued*

जारी है

1 Type of payment

भुगतान का प्रकार

Who pays it

इसका भुगतान कौन करता है

Amount received before tax and other deductions

टैक्स (कर) और अन्य कटौतियों से पहले प्राप्त राशि

Currency

मुद्रा

How often paid

भुगतान कितनी बार किया जाता है

If part of amount is for children—how much

यदि राशि का भाग बच्चों के लिए है – तो कितना भाग

Paid to:

भुगतान किसे किया जाता है:

You **Your partner**
आपको **आपके पार्टनर को**

2 Type of payment

भुगतान का प्रकार

Who pays it

इसका भुगतान कौन करता है

Amount received before tax and other deductions

टैक्स (कर) और अन्य कटौतियों से पहले प्राप्त राशि

Currency

मुद्रा

How often paid

भुगतान कितनी बार किया जाता है

If part of amount is for children—how much

यदि राशि का भाग बच्चों के लिए है – तो कितना भाग

Paid to:

भुगतान किसे किया जाता है:

You **Your partner**
आपको **आपके पार्टनर को**

If you (and/or your partner) have more than 2 other payments, attach a separate sheet with details.

यदि आपके (और/या आपके पार्टनर के) 2 से अधिक अन्य भुगतान हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Cash holdings
नकद सम्पत्ति

- 38 Do you (and/or your partner) have any cash holdings?
क्या आपके (और/या आपके पार्टनर) के पास कोई नकद सम्पत्ति है?

Include notes and coins you have in a safety deposit box, or you are holding instead of putting it into a bank account, or someone else is looking after for you.

Do NOT include cash you have for shopping and other day to day expenses.

वह नोट्स और सिक्के शामिल करें जो आपके पास सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में हैं, या जो आपने किसी बैंक एकाउंट में जमा कराने के बजाए अपने पास रखे हैं, या कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए उन्हें सँभाल कर रख रहा है।

ऐसी नकद राशि को शामिल न करें जो आपने खरीददारी और रोज़मर्रा के अन्य खर्चों के लिए रखी है।

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below

हाँ विवरण नीचे दें

Total amount कुल राशि	Currency मुद्रा
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Your share <input type="text"/> % आपका भाग	Partner's share <input type="text"/> % पार्टनर का भाग

Compensation
मुआवज़ा

- 39 Are you (and/or your partner) receiving or entitled to claim an insurance payout, damages, or compensation (if made wholly or partly in respect of lost earnings or lost capacity to earn resulting from personal injury)?


क्या आप (और/या आपका पार्टनर) कोई बीमा अदायगी, हर्जाना या मुआवज़ा प्राप्त कर रहा है या इसके लिए पात्र है (यदि व्यक्तिगत चोट के परिणामस्वरूप गँवायी आमदनी या आमदनी करने की क्षमता के खोने के संबंध में पूर्ण या आंशिक रूप से किया गया हो)?

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes

हाँ

 You will need to complete and attach a **Compensation and damages** form (Mod C). If you do not have this form, go to our website servicesaustralia.gov.au/forms आपके लिए **Compensation and damages** form (Mod C) (मुआवज़ा एवं हर्जाना फॉर्म (Mod C)) पूरा करके संलग्न करना ज़रूरी होगा। यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट servicesaustralia.gov.au/forms पर जाएँ।

Property
प्रॉपर्टी (संपत्ति)

- 40 Do you (and/or your partner) own or partly own any property or real estate inside or outside Australia, other than the home in which you live?

क्या आपकी (और/या आपके पार्टनर) की ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया से बाहर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से खुद की कोई प्रॉपर्टी (संपत्ति) या रियल एस्टेट (अचल संपत्ति) है, जिस घर में आप रहते/रहती हैं उसे छोड़कर?

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes

हाँ

 You will need to complete and attach a **Real estate details** form (Mod R). A separate form must be used for each property. If you do not have this form, go to our website servicesaustralia.gov.au/forms आपके लिए **Real estate details** form (Mod R) (रियल एस्टेट विवरण फॉर्म (Mod R)) पूरा करके संलग्न करना ज़रूरी होगा। प्रत्येक प्रॉपर्टी (संपत्ति) के लिए एक अलग फॉर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट servicesaustralia.gov.au/forms पर जाएँ।

41 Are, or have you (and/or your partner), been involved in a private trust?

क्या आप (और/या आपका पार्टनर) किसी प्राइवेट ट्रस्ट (निजी न्यास) में शामिल हैं या शामिल रह चुके/चुकी हैं?

You may be, or have been:

- a trustee
- an appointor
- a beneficiary

or have:

- made a loan to a private trust
- made a gift of cash, assets, or private property to a private trust in the last 5 years
- relinquished control of a private trust since 1 January 2002
- a private annuity
- a life interest
- an interest in a deceased estate.

हो सकता है कि आप निम्नलिखित हों या रह चुके/चुकी हों:

- ट्रस्टी (न्यासी)
- नियोक्ता
- लाभार्थी

या:

- आपने किसी प्राइवेट ट्रस्ट को उधार दिया है
- पिछले 5 वर्षों में आपने किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नकद, संपत्तियों, या निजी संपत्ति भेंट स्वरूप दिया है
- 1 जनवरी 2002 से किसी प्राइवेट ट्रस्ट का नियंत्रण त्याग दिया है
- आपकी कोई निजी वार्षिकी है
- आपका कोई आजीवन हित है
- किसी मृतक व्यक्ति के एस्टेट में आपका हित है।

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes
हाँ

 You will need to complete and attach a **Private Trust form (Mod PT)**. If you do not have this form, go to our website servicessaustralia.gov.au/forms आपके लिए **Private Trust form (Mod PT)** (निजी न्यास फॉर्म (Mod PT)) पूरा करके संलग्न करना ज़रूरी है। यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट servicessaustralia.gov.au/forms देखें।

42 Are, or have you (and/or your partner), been involved in a private company?

क्या आप (और/या आपका पार्टनर) किसी गैर-सरकारी कम्पनी में शामिल हैं या कभी शामिल रह चुके/चुकी हैं?

You may be, or have been:

- a director
- a shareholder

or have:

- made a loan to a private company
- transferred shares in a private company since 1 January 2002
- made a gift of cash, assets or property to a private company in the last 5 years.

हो सकता है कि आप इस तौर पर शामिल हों या रह चुके/चुकी हों:

- निदेशक
- शेयरधारक

या आपने:

- किसी गैर-सरकारी कम्पनी को उधार दिया है
- 1 जनवरी 2002 के बाद किसी गैर-सरकारी कम्पनी में शेयरों की बदली की है
- पिछले 5 वर्षों में किसी गैर-सरकारी कम्पनी को नकद, संपत्तियाँ या प्रॉपर्टी भेंट में दी है।

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes
हाँ

 You will need to complete and attach a **Private Company form (Mod PC)**. If you do not have this form, go to our website servicessaustralia.gov.au/forms आपके लिए **Private Company form (Mod PC)** (गैर सरकारी फॉर्म (Mod PC)) पूरा करके संलग्न करना ज़रूरी है। यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट servicessaustralia.gov.au/forms देखें।

43 Are you (and/or your partner) involved in any type of business?

क्या आप (और/या आपका पार्टनर) किसी प्रकार के व्यापार में शामिल है?

Include:

- farming
- self-employed
- sole trader
- partnership
- sub-contractor.


इनमें शामिल हैं:

- खेती-बाड़ी
- खुद का रोज़गार
- एकमात्र व्यापारी
- पार्टनरशिप (सहभागिता)
- सब-कांट्रैक्टर (उप-ठेकेदार)

No **Go to next question**

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes
हाँ

 You will need to complete and attach a **Business details** form (**Mod F**). If the business owns real estate you will also need to complete and attach a **Real estate details** form (**Mod R**) for each property.

If you do not have these forms, go to our website

servicesaustralia.gov.au/forms

आपके लिए **Business details** form

(**Mod F**) (व्यापारिक विवरण फॉर्म (**Mod F**))

पूरा करके संलग्न करना ज़रूरी है। यदि व्यापार के पास रियल एस्टेट का स्वामित्व है, तो आपके लिए प्रत्येक प्रॉपर्टी (संपत्ति) के लिए **Real estate details**

form (**Mod R**) (रियल एस्टेट विवरण फॉर्म

(**Mod R**)) पूरा करके संलग्न करना भी ज़रूरी होगा।

यदि आपके पास ये फॉर्म नहीं हैं, तो हमारी वेबसाइट

servicesaustralia.gov.au/forms देखें।

Other assets

अन्य संपत्तियाँ

44 Do you (and/or your partner) own or partly own any other assets not previously mentioned on this form?

क्या आपकी (और/या आपके पार्टनर की) अपनी खुद की पूरी या आंशिक कोई ऐसी अन्य संपत्तियाँ हैं जिनके बारे में इस फॉर्म में पहले बताया नहीं गया है?

Include assets inside or outside Australia.

ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के बाहर की संपत्तियाँ शामिल करें।

No **Go to next question**

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes **Give details below**

हाँ विवरण नीचे दें

1 Description of asset

संपत्ति का विवरण

Current market value

वर्तमान बाज़ार मूल्य

Currency

मुद्रा

Asset owned by:

संपत्ति का मालिक कौन हैं:

You

आप

Your partner

आपका पार्टनर

2 Description of asset

संपत्ति का विवरण

Current market value

वर्तमान बाज़ार मूल्य

Currency

मुद्रा

Asset owned by:

संपत्ति का मालिक कौन हैं:

You

आप

Your partner

आपका पार्टनर

3 Description of asset

संपत्ति का विवरण

Current market value

वर्तमान बाज़ार मूल्य

Currency

मुद्रा

Asset owned by:

संपत्ति का मालिक कौन हैं:

You

आप

Your partner

आपका पार्टनर

If you (and/or your partner) have more than 3 other assets, attach a separate sheet with details.

यदि आपकी (और/या आपके पार्टनर) की 3 से अधिक अन्य संपत्तियाँ हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Accommodation
निवास-स्थान

- 45 Which of the following best describes where you live?
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह इस बात का वर्णन करता है कि आप कहाँ रहते/रहती हैं?

In a home you (and/or your partner) own

This includes paying it off (mortgage).

एक ऐसे घर में जो आपका (और/या आपके पार्टनर) का खुद का है इसमें इसका (मॉर्टगेज का) भुगतान करना शामिल है।

Go to 46
46 पर जाएँ

In a place where you pay private rent or board and lodging

किसी ऐसी जगह जिसके लिए आप निजी रूप से किराया देते/देती हैं अथवा बोर्ड एवं लॉजिंग का भुगतान करते/करती हैं

Go to 60
60 पर जाएँ

In a retirement village

किसी रिटायरमेंट विलेज में

Go to 50
50 पर जाएँ

In accommodation which you have the right to use free for life
Such as a granny flat to use for life.

किसी ऐसे निवास-स्थान में जिसका जीवन-भर निःशुल्क रूप से प्रयोग करने का आपको अधिकार प्राप्त है

जैसे कि जीवन-भर के प्रयोग के लिए ग्रैनी फ्लैट

Go to 52
52 पर जाएँ

In a residential aged care home (nursing home or hostel) which provides nursing care

किसी आवासीय वयोवृद्ध देखभाल गृह (नर्सिंग होम या होस्टल) में जो नर्सिंग देखभाल प्रदान करता है

Go to 53
53 पर जाएँ

Other (give details below)

अन्य (विवरण नीचे दें)

Go to 60
60 पर जाएँ

Your principal home
आपका प्रमुख घर

- 46 Is the home on a block of land larger than 2 hectares (5 acres)?

क्या आवास की भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर (5 एकड़) से अधिक है?

No **Go to next question**
नहीं **अगले प्रश्न पर जाएँ**

Yes
हाँ



You will need to complete and attach a **Real estate** details form (**Mod R**).
If you do not have this form, go to our website

servicesaustralia.gov.au/forms

आपके लिए **Real estate** details form (**Mod R**) (**रियल एस्टेट विवरण फॉर्म (Mod R)**)

पूरा करके संलग्न करना ज़रूरी है। यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट

servicesaustralia.gov.au/forms देखें।

- 47 Does the property that you (and/or your partner) live on have more than one title document?

आप (और/या आपका पार्टनर) जिस संपत्ति में निवास करते/करती हैं, क्या उसके लिए एक से अधिक टाइटल दस्तावेज़ हैं?

No **Go to next question**
नहीं **अगले प्रश्न पर जाएँ**

Yes
हाँ



You will need to complete and attach a **Real estate** details form (**Mod R**).
If you do not have this form, go to our website

servicesaustralia.gov.au/forms

आपके लिए **Real estate** details form (**Mod R**) (**रियल एस्टेट विवरण फॉर्म (Mod R)**)

पूरा करके संलग्न करना ज़रूरी है। यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट

servicesaustralia.gov.au/forms देखें।

48 Is any part of the home property used for income producing purposes?

क्या घरेलू संपत्ति के किसी भी अंश का उपयोग आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जाता है?

Do NOT include rent from boarders or lodgers.

बोर्डर्स या लॉजर्स से प्राप्त किराए को शामिल न करें।

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes
हाँ

 You will need to complete and attach a **Real estate** details form (**Mod R**). If you do not have this form, go to our website servicessaustralia.gov.au/forms
आपके लिए **Real estate** details form (**Mod R**) (रियल एस्टेट विवरण फॉर्म (**Mod R**)) पूरा करके संलग्न करना ज़रूरी है। यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट servicessaustralia.gov.au/forms देखें।

49 Do you (and/or your partner) have an interest in any other real estate in and/or outside Australia?

क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर और/या बाहर स्थित किसी अन्य रियल एस्टेट में आपकी (और/या आपके पार्टनर की) रुचि है?

No Go to 60

नहीं 60 पर जाएँ

Yes How many other properties in and/or outside Australia do you (and/or your partner) own or have a interest in?

हाँ

आपके (और/या आपके पार्टनर के) पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर और/या बाहर स्थित कितनी अन्य संपत्तियों का स्वामित्व या रुचि है?

 You will need to complete and attach a **Real estate details** form (**Mod R**) for each property. If you do not have this form, go to our website servicessaustralia.gov.au/forms.
प्रत्येक संपत्ति के लिए आपको अलग-अलग **Real estate details** form (रियल एस्टेट विवरण फॉर्म) (**Mod R**) पूरा करके संलग्न करने की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट servicessaustralia.gov.au/forms देखें।
▶ Go to 60
60 पर जाएँ

Retirement village

रिटायरमेंट विलेज

50 Did you pay an entry contribution for your accommodation in the retirement village?

क्या आपने रिटायरमेंट विलेज में अपने निवास के लिए प्रवेश योगदान का भुगतान किया है?

No Go to next question

नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes Give details below

हाँ विवरण नीचे दें

How much?

कितना?

Currency

मुद्रा

51 Do you still own your former home?

क्या आप अभी भी अपने पुराने घर के मालिक हैं?

No Go to 60

नहीं 60 पर जाएँ

Yes
हाँ

 You will need to complete and attach a **Real estate** details form (**Mod R**). If you do not have this form, go to our website servicessaustralia.gov.au/forms
आपके लिए **Private Company** form (**Mod PC**) (गैर सरकारी फॉर्म (**Mod PC**)) पूरा करके संलग्न करना ज़रूरी है। यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट servicessaustralia.gov.au/forms देखें।
▶ Go to 60
60 पर जाएँ

Life interest
आजीवन हित

- 52 Did you pay a sum of money and/or transfer any assets to another person in return for this accommodation for life?
क्या आपने जीवन-भर के लिए इस निवास-स्थान के बदले में किसी दूसरे व्यक्ति को धन-राशि का भुगतान किया है और/या किन्हीं संपत्तियों को उनके नाम पर हस्तांतरित किया है?

No **Go to 60**
नहीं **60 पर जाएँ**

Yes **Give details below**
हाँ विवरण नीचे दें

Name of person or organisation व्यक्ति या संस्था का नाम	
<input type="text"/>	
Address पता	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
Country क़्द्री	
Date paid/transferred भुगतान/हस्तांतरण की दिनांक	
<input type="text"/>	
Amount paid भुगतान की गई राशि	Currency मुद्रा
<input type="text"/>	<input type="text"/>

AND/OR
और/या

What assets were transferred किन संपत्तियों को हस्तांतरित किया गया था	
<input type="text"/>	
Market value of assets transferred तबदील की गई संपत्तियों का बाज़ार मूल्य	
Currency मुद्रा	<input type="text"/>

► **Go to 60**
60 पर जाएँ

Residential aged care home (nursing home or hostel)
which provides nursing care
आवासीय वयोवृद्ध देखभाल गृह (नर्सिंग होम या होस्टल) जो नर्सिंग देखभाल प्रदान करता है

- 53 On what date did you move into your accommodation in the nursing home or hostel?
नर्सिंग होम या होस्टल के अपने निवास में आपने किस दिनांक को प्रवेश किया था?

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

- 54 Do you still own your former home?
क्या आप अभी भी अपने पुराने घर के मालिक हैं?

No **Go to 60**
नहीं **60 पर जाएँ**

Yes **Go to next question**
हाँ अगले प्रश्न पर जाएँ

- 55 Do you have a partner?
क्या आपका कोई पार्टनर (सहजीवी) है?

No **Go to 59**
नहीं **59 पर जाएँ**

Yes **Go to next question**
हाँ अगले प्रश्न पर जाएँ

- 56 Does your partner still live in your former home?
क्या आपका पार्टनर अभी भी आपके पुराने घर में रहता है?

No **Go to next question**
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes **Go to 60**
हाँ **60 पर जाएँ**

- 57 What date did your partner leave your former home?
आपके पार्टनर ने किस दिनांक को आपका पुराना घर छोड़ा था?


Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

58 Did your partner leave your former home more than 2 years ago?

क्या आपके पार्टनर ने 2 साल पूर्व से पहले आपका पुराना घर छोड़ा था?

No **Go to 60**
नहीं **60 पर जाएँ**

Yes
हाँ


 You will need to complete and attach a **Real estate** details form (**Mod R**). If you do not have this form, go to our website servicesaustralia.gov.au/forms
आपके लिए **Real estate** details form (**Mod R**) (रियल एस्टेट विवरण फॉर्म (**Mod R**)) पूरा करके संलग्न करना ज़रूरी है। यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट servicesaustralia.gov.au/forms देखें।
▶ **Go to 60**
60 पर जाएँ

59 Did you leave your former home more than 2 years ago?

क्या आपने 2 साल पूर्व से पहले अपना पुराना घर छोड़ा था?

No **Go to next question**
नहीं **अगले प्रश्न पर जाएँ**

Yes
हाँ

 You will need to complete and attach a **Real estate** details form (**Mod R**). If you do not have this form, go to our website servicesaustralia.gov.au/forms
आपके लिए **Real estate** details form (**Mod R**) (रियल एस्टेट विवरण फॉर्म (**Mod R**)) पूरा करके संलग्न करना ज़रूरी है। यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है, तो हमारी वेबसाइट servicesaustralia.gov.au/forms देखें।
▶ **Go to next question**
अगले प्रश्न पर जाएँ

Checklist
जाँच-सूची

60 Use this checklist to remind you which documents you must attach.

स्वयं को यह याद दिलाने के लिए इस जाँच-सूची का प्रयोग करें कि आपको कौन से दस्तावेज संलग्न करने चाहिए।

If you are not sure, check the question to see if you should attach the documents.

यदि आप अनिश्चित हों, तो इस प्रश्न की जाँच यह देखने के लिए करें कि क्या आपको दस्तावेज संलग्न करने चाहिए या नहीं।

Where you are asked to supply original documents, only supply copies of original documents.

जहाँ आपसे मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा जाए, वहाँ केवल मूल दस्तावेजों की प्रतियाँ ही उपलब्ध कराएँ।

	You आप	Your partner आपका पार्टनर (सहजीवी)
Most recent payslip(s) (if you answered Yes at question 12) सबसे हाल ही की पेस्लिप (वेतन पर्चियाँ) (यदि आपने प्रश्न 12 का उत्तर हाँ में दिया है)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documents which show details of fringe benefits (if you answered Yes at question 13) फ्रिज बेनिफिट का विवरण देने वाले दस्तावेज (यदि आपने प्रश्न 13 का उत्तर हाँ में दिया है)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Latest insurance policy documents and latest statements (if you answered Yes at question 15) नवीनतम बीमा नीति दस्तावेज और नवीनतम स्टेटमेंट्स (यदि प्रश्न 15 में ज़रूरी हो, तो)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Income protection policy documents and latest statements (if required at question 16) इन्कम प्रोटेक्शन पॉलिसी (आय सुरक्षा नीति) के दस्तावेज और नवीनतम स्टेटमेंट्स (यदि प्रश्न 16 में ज़रूरी हो, तो)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funeral Service contract (if required at question 18) फ्यूनरल सर्विस (अंतिम संस्कार की सेवा का) कांट्रैक्ट (यदि प्रश्न 18 में ज़रूरी हो, तो)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Latest bank account statements (if required at question 20) नवीनतम बैंक एकाउंट स्टेटमेंट्स (यदि प्रश्न 20 में ज़रूरी हो, तो)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Latest statements for bonds and debentures (if you answered Yes at question 21) बांड और डिबेंचर (ऋण-पत्र) के नवीनतम स्टेटमेंट्स (यदि आपने प्रश्न 21 का उत्तर हाँ में दिया है)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

60 Continued
जारी है

	You आप	Your partner आपका पार्टनर (सहजीवी)
Loan contract and latest statements (if you answered Yes at question 22) लोन कांट्रैक्ट (ऋण अनुबंध) और नवीनतम स्टेटमेंट्स (यदि आपने प्रश्न 22 का उत्तर हाँ में दिया है)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Latest statements for shares LISTED on a stock exchange (if you answered Yes at question 23) उन शेयरों के नवीनतम स्टेटमेंट्स जो शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं (यदि आपने प्रश्न 23 का उत्तर हाँ में दिया है)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Latest statements for shares NOT listed on a stock exchange (if you answered Yes at question 24) उन शेयरों के नवीनतम स्टेटमेंट्स जो शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध नहीं हैं (यदि आपने प्रश्न 24 का उत्तर हाँ में दिया है)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documents which show details of managed investments (if you answered Yes at question 25) मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट (प्रबंधित निवेश) का विवरण दर्शाने वाले दस्तावेज (यदि आपने प्रश्न 25 का उत्तर हाँ में दिया है)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Latest statement for margin loans for each investment (if you answered Yes at question 26) प्रत्येक निवेश के लिए मार्जिन लोन (उपांत उधार) का नवीनतम स्टेटमेंट (यदि आपने प्रश्न 26 का उत्तर हाँ में दिया है)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copy of the loan agreement or contract (if you answered Yes at question 27) उधार समझौते या कांट्रैक्ट की प्रति (यदि आपने प्रश्न 27 का उत्तर हाँ में दिया है)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Latest statements for approved deposit funds, deferred annuities, rollover funds and superannuation funds, tax returns and member's statements for SMSF and SAF funds (if you answered Yes at question 28) अनुमोदित डिपॉजिट फंड्स, आस्थगित वार्षिकियाँ, रोलओवर फंड्स और सुपरएनुएशन फंड्स के नवीनतम स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स और SMSF व SAF फंड्स के मैम्बर स्टेटमेंट्स (यदि आपने प्रश्न 28 का उत्तर हाँ में दिया है)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	You आप	Your partner आपका पार्टनर (सहजीवी)
<p>Latest schedules for income stream products or a Details of income stream product form (SA330) (if you answered Yes at question 29) आय स्रोत उत्पादों का नवीनतम सूची-पत्र या एक Details of income stream product form (SA330) (आय स्रोत उत्पाद के विवरण फॉर्म (SA330)) (यदि आपने प्रश्न 29 का उत्तर हाँ में दिया है)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Documents which show details of other investments (if you answered Yes at question 30) वह दस्तावेज़ जो अन्य निवेशों के विवरण दर्शाते हैं (यदि आपने प्रश्न 30 का उत्तर हाँ में दिया है)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Documents which show details of payments from inside and outside Australia (if required at question 32) वह दस्तावेज़ जो ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया के बाहर से किए भुगतानों के विवरण दर्शाते हैं (यदि प्रश्न 32 में ज़रूरी हो, तो)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Letters/documents with details of other Australian government payments (if you answered Yes at question 35) अन्य ऑस्ट्रेलियाई सरकारी भुगतानों का विवरण प्रदान करने वाले पत्र/दस्तावेज़ (यदि आपने प्रश्न 35 का उत्तर हाँ में दिया है)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Documents which show details of other payments (if you answered Yes at question 37) वह दस्तावेज़ जो अन्य भुगतानों के विवरण दर्शाते हैं (यदि आपने प्रश्न 37 का उत्तर हाँ में दिया है)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>A Compensation and damages form (Mod C) (if you answered Yes at question 33) एक Compensation and damages form (Mod C) (सुआवज़ा और हर्जाना फॉर्म (Mod C)) (यदि आपने प्रश्न 33 का उत्तर हाँ में दिया है)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	You आप	Your partner आपका पार्टनर (सहजीवी)
<p>A Real estate details form (Mod R) (if you answered Yes at questions 40, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 58 and 59) एक Real estate details form (Mod R) (रियल एस्टेट विवरण फॉर्म (Mod R)) (यदि आपने प्रश्न 40, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 58, और 59 का उत्तर हाँ में दिया है)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>A Private Trust form (Mod PT) (if you answered Yes at question 41) एक Private Trust form (Mod PT) (निजी न्यास फॉर्म (Mod PT)) (यदि आपने प्रश्न 41 का उत्तर हाँ में दिया है)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>A Private Company form (Mod PC) (if you answered Yes at question 42) एक Private Company form (Mod PC) (गैर-सरकारी कम्पनी फॉर्म (Mod PC)) (यदि आपने प्रश्न 42 का उत्तर हाँ में दिया है)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>A Business details form (Mod F) (if you answered Yes at question 43) एक Business details form (Mod F) (व्यापारिक विवरण फॉर्म (Mod F)) (यदि आपने प्रश्न 43 का उत्तर हाँ में दिया है)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>A copy of the latest Balance sheet, Profit and Loss Statements, Tax Returns and your (and/or your partner's) latest personal Tax Return (if required at question 47) नवीनतम बैलेंस शीट (तुलन पत्र), प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट (लाभ एवं हानि के ब्यौरे), टैक्स रिटर्न्स और आपका (और/या आपके पार्टनर) का नवीनतम व्यक्तिगत टैक्स रिटर्न (यदि प्रश्न 47 में ज़रूरी हो, तो)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

61 You (and your partner) need to read this

आपको (और आपके पार्टनर को) यह कथन पढ़ने की आवश्यकता है

Privacy and your personal information

The privacy and security of your personal information is important to us, and is protected by law. We need to collect this information so we can process and manage your applications and payments, and provide services to you. We only share your information with other parties where you have agreed, or where the law allows or requires it. For more information, go to servicesaustralia.gov.au/privacy

गोपनीयता और आपकी निजी जानकारी

आपकी निजी जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और यह कानून द्वारा संरक्षित है। हमें यह जानकारी एकत्रित करने की जरूरत है ताकि हम आपके आवेदनों एवं भुगतानों को प्रोसेस और प्रबंधित कर सकें, और आपको सेवाएँ प्रदान कर सकें। हम केवल उस परिस्थिति में अन्य पक्षों के साथ आपकी जानकारी साझा करते हैं जहाँ आपने ऐसा करने की सहमति दी होती है, या जहाँ कानून ऐसा करने की अनुमति देता है या आवश्यक बनाता है। और अधिक जानकारी के लिए, servicesaustralia.gov.au/privacy वेबसाइट देखें।

Statement

बयान

62 Statement

बयान

I declare that:

- the information I have provided on this form is complete and correct.

I understand that:

- I must return all supporting documents at the same time as I lodge my claim form. If I do not return all documents, my claim may not be accepted. The only exceptions will be if I am waiting for medical evidence or statements and other forms from a third party.
- Centrelink can make relevant enquiries necessary to make sure I receive my correct entitlement.
- giving false or misleading information is a serious offence.

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि:

- मेरे द्वारा इस फॉर्म में प्रदान की गई सूचना सही है।

मैं समझता/समझती हूँ कि:

- मुझे सभी सहायक दस्तावेज़ एक साथ उसी समय वापिस करने चाहिए जब मैं अपना क्लेम फॉर्म जमा कराता/करती हूँ। यदि मैं सभी दस्तावेज़ वापिस नहीं करता/करती हूँ, तो हो सकता है कि मेरा क्लेम फॉर्म स्वीकार न किया जाए। ऐसी स्थिति में छूट केवल तभी मिलेगी यदि आप किसी तृतीय पक्ष से चिकित्सीय प्रमाण या वक्तव्यों तथा अन्य फॉर्मों की प्रतीक्षा कर रहे हों।
- Centrelink आवश्यक प्रासंगिक पूछताछ कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुझे सही पात्रता प्राप्त होती है।
- झूठी या भ्रामक जानकारी देना एक गंभीर अपराध है।

Your signature

आपके हस्ताक्षर



Date

दिनांक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

Your partner's signature

आपके पार्टनर (सहजीवी) के हस्ताक्षर



Date

दिनांक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/